

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2012—भाद्र 16, शक 1934

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं